

झारखंड "किसान सशक्तिकरण अभियान"

उद्घाटन दिनांक 22 नवंबर 2018 बोकारो।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं उसकी सहयोगी संस्था "राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन" ने अलग - अलग क्षेत्रों में शाश्वत योगिक खेती की जानकारी देने हेतु "किसान सशक्तिकरण अभियान" का शुभारम्भ दिनांक 22 नवंबर 2018 को झारखंड के इस्पात नगरी बोकारो स्टील सिटी से किया गया।

अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के चारों दिशाओं में 4 " दिव्य किसान सेवा रथ" अलग-अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किये गए। इन अभियानों में ब्रह्माकुमारी बहनें मार्ग में आने वाले गांवों कस्बों और शहरों में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों एवं ग्रामीण जनों को स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के लिए सकारात्मक चिंतन को अपनाने तथा राजयोग द्वारा व्यसन मुक्ती, मूल्य शिक्षा एवं तनावमुक्त खुशहाल जीवन की जानकारी देगे।

माउण्ट आबू से आए ब्रह्माकुमार राजू भाई जी ने योग व संकल्प के माध्यम से शाश्वत योगिक खेती का पैगाम दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, ब्रह्माकुमारी तृप्ति दीदी ने व्यसनों का दान मांगा और कहा कि हमें किसानों को सशक्त करने का संकल्प लेना होगा।

हमारे मुख्य अतिथि श्री रणधीर कुमार सिंह (कृषि मंत्री झारखंड सरकार) ने दीप प्रज्वलित कर अपने विधिवत उद्घाटन शुभ उदबोदन भाषण में किसान सशक्तिकरण हेतु हर संभव प्रयास करने की तहे दिल से प्रशंसा किया। विशिष्ट अतिथि विधायक श्री वीरंची नारायण ने विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से जीवन जीने को प्रेरित किया और डेटम वॉल बनवाने के अपने वायदे को सरकार के समक्ष रखने की बात कही।

योग के प्रयोग द्वारा खेती को तथा किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए ब्रह्माकुमार भाई - बहनों के इस अभिभूत प्रयास की सभी गणमान्य नागरिकों और सैकड़ों किसान भाइयों बहनों में भरपूर प्रशंसा की।

बोकारो सेंटर मुख्य संचालिका ब्रह्माकुमारी कुसुम बहन ने अपने अध्यक्षीय प्रवचन के साथ-साथ कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि, सभी विशिष्ट अतिथि, ब्र•कु• भाई-बहनें एवं किसान भाइयों का धन्यवाद ज्ञापन किया ।